



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 268 राँची, मंगलवार, 26 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-76/2018-1397 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि सुश्री रश्मि रंजन, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-पटना, बिहार), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, अतिरिक्त प्रभार-अवर निबंधक, मधुपुर के विरुद्ध मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के निबंधन कार्य को बाधित करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अड़ियलपन एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2972(9)/रा०, दिनांक 16.07.2018 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-419/स्था०, दिनांक 25.06.2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः सुश्री रंजन के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा सुश्री रंजन को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. सुश्री रंजन द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. सुश्री रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अवर निबंधक, मधुपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RASHMI RANJAN 110027710606	सुश्री रश्मि रंजन, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-पटना, बिहार), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, अतिरिक्त प्रभार-अवर निबंधक, मधुपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
